

SHRI GANG INDUSTRIES AND ALLIED PRODUCTS LIMITED

Corporate office: F-32/3, Okhla Industrial Area, Phase- II, New Delhi- 110020

Registered Office & Works-A-26 UPSIDC Industrial Area, Sikandrabad, Bulandshahar, U.P.-203205

Sandila Works: - Plot No B-2/6, B-2/7, UPSIDC Industrial Area- Phase IV, Sandila, Distt Hardoi, U.P.

E. id:-secretarial@shrigangindustries.com website:-www.shrigangindustries.com Tel No: 011-42524454

July 31, 2020

To,
The Executive Director
BSE Limited
Floor 25, P J Towers
Dalal Street
Mumbai-400001

Scrip Code: 523309

Sub: Intimation of the publication of extract of Audited Financial Results for the quarter & year ended March 31, 2020.

Dear Sir/ Ma'am

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copy of extract of Audited Financial Results for the quarter & year ended March 31, 2020 published in the following newspapers:

1. The Financial Express (English)
2. Jansatta (Hindi)

Kindly take note of the same and acknowledge the receipt.

Thanking you

Yours truly,

For Shri Gang Industries and Allied Products Limited

For SHRI GANG INDUSTRIES &
ALLIED PRODUCTS LTD.


Kanishka Jain (Secretary)
(Company Secretary)

Encl.: a/a

बैंक ऑफ बड़ौदा Bank of Baroda
www.bankofbaroda.com
श्री गंग इण्डस्ट्रीज एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्स लि.

श्री गंग इण्डस्ट्रीज एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्स लि.
पंजीकृत कार्यालय: ए-26, यूपीएसआईडीसी, औद्योगिक क्षेत्र, सिकन्दराबाद, बलुन्दरशहर, उ.प्र.-203205
ई-मेल: secretarial@shrigangindustries.com

श्री गंग इण्डस्ट्रीज एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्स लि.
पंजीकृत कार्यालय: ए-26, यूपीएसआईडीसी, औद्योगिक क्षेत्र, सिकन्दराबाद, बलुन्दरशहर, उ.प्र.-203205

श्री गंग इण्डस्ट्रीज एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्स लि.
CIN: L0112UP1989PLC011004
31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही और लेखा वर्ष के लिए ऑडिटेड स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों का सार

डिलीविंग कोको वॉटर प्रा. लि. - परिसमापन में
दिलवाता और आम सभ्य अक्षय शर्मा, 2016 के अंतिम परिणामों के जोड़-नीलामी बिक्री
मौलामी की तिथि और समय: 21 सितंबर, 2020 पूर्ण 11:00 बजे से अप 5:00 बजे तक (10 मिनट प्रत्येक के अंतिम विलारों के साथ)

वैलियट कॉम्प्यूटेशन लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: 7/11 विद्यार्थी मार्ग, नई दिल्ली-110015
सीआईडीए: L74899DL1995PLC056652

ऊर्जा लेबोरेटरी लिमिटेड
CIN: L6712DD11992PLC048983
पंजीकृत कार्यालय: ए-15, एन आरडी, नई दिल्ली-110028

वैलियट कॉम्प्यूटेशन लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: 7/11 विद्यार्थी मार्ग, नई दिल्ली-110015
सीआईडीए: L74899DL1995PLC056652

प्रतिशत दर ई-निविदा आमन्त्रण
प्रेस सूचना
भारत के राष्ट्रपति की ओर से अधिशासी अधिकारी (सी), पोर्टल से विविध इंडीविजुअल, नई दिल्ली निम्नलिखित कार्य के लिए ऑनलाइन प्रतिशत दर (सौंपीकृत/बुद्धी-7) ई-निविदा आमन्त्रित करते हैं:

त्रिवेणी टरबाइन लिमिटेड
कारपोरेट कार्यालय: ए-44 शीवरी कालोनी, फेस II विद्यार्थी, नई दिल्ली-110035
पंजीकृत कार्यालय: ए-44 शीवरी कालोनी, फेस II विद्यार्थी, नई दिल्ली-110035
कारपोरेट कार्यालय: ए-44 शीवरी कालोनी, फेस II विद्यार्थी, नई दिल्ली-110035

BRAND REALTY SERVICES LTD.
Extract of Audited Standalone Financial Results for the Fourth Quarter / year ended March 31, 2020
Particulars, Quarter ended, 31.03.2020 (Audited), 31.03.2019 (Audited), 31.03.2020 (Audited)

एडविंक लेबोरेटरीज लिमिटेड
CIN: L74899HR1994PLC038300
पंजीकृत कार्यालय: 138, नेत्र कालोनी, इंदिरा नगर, दिल्ली-110028
वेबसाइट: www.advikindia.com ईमेल: mail@advikindia.com



SHANTNU INVESTMENTS (INDIA) LIMITED
 Regd Off: DSC-319, DLF South Court, Saket, New Delhi-110017
 CIN: L65993DL1973PLC006795, Email: cs@gravalveindia.com, Mob. No.: +91-956020047

Extracts of the Audited Financial Results for the Quarter & year ended 31.03.2020
 (Amount in Thousands)

S. No.	Particulars	Quarter Ended		Financial Year ended	
		31.03.2020 (Audited)	31.12.2019 (Un-audited)	31.03.2019 (Audited)	31.03.2020 (Audited)
1	Total Income from operations	17,241.20	15,731.49	45,425.47	79,854.60
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	-2,338.25	-35.08	2,925.39	1,529.35
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	-2,338.25	-35.08	2,925.39	1,529.35
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	1,271.78	-298.48	2,126.15	4,065.05
5	Total Comprehensive Income for the Period (Comprising Profit / (Loss) for the Period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	1,271.78	-298.48	2,126.15	4,065.05
6	Paid-up equity share capital (Face Value of Rs. 10 per share)	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
7	Earnings per share (before extraordinary items) (of Rs. 10/- each) (Not Annualised)	35,168.73	34,487.13	30,693.87	35,168.73
8	(a) Basic	6.36	-1.49	10.63	20.33
	(b) Diluted	6.36	-1.49	10.63	20.33
9	Earnings per share (after extraordinary items) (of Rs. 10/- each) (Not Annualised)	6.36	-1.49	10.63	20.33
	(a) Basic	6.36	-1.49	10.63	20.33
	(b) Diluted	6.36	-1.49	10.63	20.33

Notes:
 1. The scheme of amalgamation for three Unlisted wholly owned subsidiaries Ayushman Infotech Pvt.Ltd, Shri Parasrath Plastics Pvt.Ltd and Gravalve Infrastructure India Limited with the company has been approved by the National Company Law Tribunal on 29th January, 2020 and filed with Registrar of Companies on 4th March 2020. The scheme has become effective from the appointed date i.e. 1st April 2019. The merger has been accounted under the pooling of interest method in accordance with IND-AS 103 Business Combination and comparative have been prepared for merger from the beginning of the previous year i.e. 1st April 2018. Accordingly, results of the three Unlisted wholly owned subsidiaries have been included in all the periods presented. The comparative financial results of three companies for the quarter ended 31st March 2019 are included in the above results based on the information compiled by the Management.
 2. The company's consolidated financial results presented upto 31st December 2019 were prepared for the investments held by the company in its three Unlisted wholly owned subsidiary the merger of which has been approved in this quarter making it operative from 1st April 2019 as stated in Point 1 above so the company's standalone results are itself consolidated results.
 3. The figures of the quarter ended 31st March, 2020 and the quarter ended 31st March, 2019 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year and the published unaudited year to date figures upto the third quarter of respective financial years which were subject to limited review.
 4. Figures for the previous period/year are re-classified/re-grouped, wherever necessary, to correspond with the current period/year's classification.
 5. The above standalone financial results for the Quarter and Year ended 31st March, 2020 have been Audited by the Statutory Auditor P.K. Narula & Co. who has expressed an unmodified opinion on the same.
 6. The above Audited Financial Results have been recommended by audit committee and subsequently approved by the Board of Directors at their meeting held on 30th July, 2020.

For SHANTNU INVESTMENTS (INDIA) LIMITED
 Sd/-
 Pragy Agarwal
 (Managing Director)
 DIN No. 00993526

Place : New Delhi
 Date : 30th July, 2020

Form No. URC-2
 Advertisement giving notice about registration under Part of Chapter XXI
 (Pursuant to section 37A(b) of the Companies Act, 2013 and rule 4(1) of the Companies (Mandatory to Register) Rules, 2014)
 1. Notice is hereby given that in pursuance of sub-section (2) of section 366 of the Companies Act, 2013, an application has been made to the Registrar (MCT of Delhi & Haryana) that RAA/SH BUSICON LLP, LLP may be registered under Part I of Chapter XXI of the Companies Act, 2013, as a company limited by shares.
 2. The principal objects of the company are as follows: Consultancy in the field of management, accounting, taxation, legal, secretarial and marketing and other allied services.
 3. A copy of the draft memorandum and articles of association of the proposed company may be inspected at the office at 122A5/F/F, Gautam Nagar New Delhi 110049.
 4. Notice is hereby given that any person objecting to the registration of the company should do so within the period of 30 days from the date of this notice.

Fr, 31 July 2020
 https://paper.financialexpress.com/c/53893417

HISAR METAL INDUSTRIES LIMITED
 Registered Office: Near Industrial Development Colony, Delhi Road, Hisar-125005 (Haryana)
 Email: info@hisarmetal.com, Website: www.hisarmetal.com
 Tel: (01562) 220967, 220987, 220738 Fax: (01562) 220295
 CIN: L74899HR1959CP, C030507

NOTICE
 Notice is hereby given that pursuant to Regulation 47 read with Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, August 12, 2020 inter-alia, to consider and approve the un-audited financial results for the quarter ended on June 30, 2020.
 The said information is also available on the Company's website at www.hisarmetal.com and on the Stock Exchanges website at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

For Hisar Metal Industries Limited
 Sd/-
 (Vishesh Kumar Chugh)
 Company Secretary

Place: Hisar (Haryana)
 Date: July 30, 2020

SALE NOTICE
Delicious Coco Water Private Limited - In Liquidation
 E-Auction Sale of Assets under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016
Date & Time of E-Auction: Monday, 21st September, 2020 from 11 am to 5 pm (With unlimited extension of 10 minutes)
 E-Auction Sale of Assets of **M/s Delicious Coco Water Private Limited** - In Liquidation on "As is where it basis", "As is what is basis", "Whatever there is basis", and "No recourse basis".

Nature of Asset	Description	Reserve Price (INR)	Earnest Money Deposit (INR)
Land and Building	Land and Building situated at D-13, Udyog Nagar Industrial Area, Piersa Garhi, New Rohatk Road, New Delhi 110041 having a total land area admeasuring 2051.694 square meters (3171.40 sq. yards). This land is Freehold and is registered in the name of the company. The Banquette Hall has been constructed on this land along with ancillary structures having total built up area of approx 1,00,000 sq. ft. comprising in building portion 1 Lower Basement, Upper Basement, Ground Floor, First Floor, and Second Floor.	Rs. 42,00,00,000 (Rupees Forty Two Crores only)	Rs. 50,00,000 (Rupees Fifty Lakhs only)
Air Conditioner and Ventilation System and Lifts & Fire Systems etc.	Air Conditioner and Ventilation system installed for running the operations as well as equipment installed in utility. This also includes furniture & fixture, office equipment etc. 3 Lifts installed inside building in 2015. Fire System installed in 2015, Borewell-1	Forty Two Crores only	Incremental Bid Amount (INR) Rs. 10,00,000 (Rupees Ten Lakhs only)

Terms and Conditions of the E-Auction:
 1. The complete E-Auction Process Memorandum containing Terms and Conditions of E-Auction are available on website of approved service provider: [Right2Vote.in](https://right2vote.in)
 2. The Liquidator has the absolute right to accept or reject any or all offer(s) or adjourn/ postpone the E-Auction or withdraw any property or portion thereof from the auction/proceeding at any stage without assigning any reason therefor.

Kishan Gopal Somani - Liquidator
 IBBI Reg No: IBBI/PA-01/TP-P0300/2017-18/10544
 K.G. Somani Insolvency Professionals Private Limited
 Address: 3/15, 4th Floor, Anand Al Road, New Delhi - 110002
 Email id: kgs.deliciouscoco@gmail.com, Contact Number: 011-41426262

SHRI GANG INDUSTRIES AND ALLIED PRODUCTS LIMITED
 CIN: L01122UP1989PL, C011004
 Regd. Office: A-26 UPSIDC Industrial Area, Sikandrabad, Bulandshahar, Uttar Pradesh-203205
 Email ID: secretarial@shrigangindustries.com Website: www.shrigangindustries.com

Extract of Audited Standalone Financial Results for the Quarter and Accounting Year ended March 31, 2020
 (Rs. in Lacs)

S. No.	Particulars	Quarter ended as on 31.03.2020 (Audited)	Quarter ended as on 31.03.2019 (Audited)	Accounting Year ended as on 31.03.2020 (Audited)	Accounting Year ended as on 31.03.2019 (Audited)
1	Total income from operations (net)	21.81	60.67	28.03	504.78
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(95.88)	12.52	(361.34)	(235.89)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(95.88)	(6.80)	(361.34)	(255.01)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax	(95.88)	(6.80)	(361.34)	(255.01)
5	Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- each)	793.00	793.00	793.00	793.00
6	Reserve (excluding Provision) Per Share per balance sheet of previous accounting year	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Earnings per share (Face value of Rs. 10/- Each) for Continuing and Discontinuing operations (* not annualized)	(1.21)*	(0.08)*	(4.56)	(3.22)

Note:
 1. The above results were reviewed by the Audit Committee in their meeting held on 29.07.2020 and later on approved by the Board of Directors in their meeting held on 29.07.2020.
 2. These results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules issued thereunder.
 3. At present the company operates only in one segment - Vanspati & Refined Oils. The company is establishing a Distillery and Bottling Plant for manufacture of IMFL & Country Liquor at Sandila, Dist. Haridwar, Uttar Pradesh, which is under implementation.
 4. During the current quarter as well as in the previous quarters of FY 2019-2020, there was no production in the vanaspathi/refined oil unit of the company.
 5. The outbreak of Coronavirus (Covid-19) pandemic globally and in India and the consequent imposition of lock down by the Central Government has delayed the commissioning of the Bottling Unit being set up by the company for manufacture of IMFL at Sandila, Dist. Haridwar, by about 3 months.
 6. The figures pertaining to the last quarter are the balancing figures between the audited figures in respect of period from 01.04.2019 to 31.03.2020 and the published year to date figures upto 31.12.2019.
 7. Previous periods' figures have been regrouped/re-arranged to make them comparable to current period.

By order of the Board
 For Shri Gang Industries And Allied Products Limited
 Sd/-
 S. A. Rahman
 Whole Time Director

Place : New Delhi
 Date : July 29, 2020

ACE ACTION CONSTRUCTION EQUIPMENT LIMITED
 CIN: L74899HR1959PL, C0305060
 Regd. Office: Dutholi Link Road, Dutholi, Dist. Palwal-121102, Haryana
 Phone: +91-1275-280111 (50 Lines), Fax: +91-1275-280133
 E-mail: cs@ace-crane.com, Website: www.ace-crane.com

NOTICE
 Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing Regulations), Notice is hereby given that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Monday, August 10, 2020 inter-alia to consider, approve and take on record the Unaudited Financial Results (Standalone and Consolidated) of the Company for the quarter ended on June 30, 2020. The Financial Results shall be subject to limited review by Statutory Auditors of the Company.
 The said notice may be accessed on the Company's website at <http://www.ace-crane.com> and may also be accessed on the Stock Exchanges' website at <http://www.bseindia.com> and <http://www.nseindia.com>.
 Further, please be also informed that in accordance with Code of Conduct to Regulate, Monitor and Report Trading by insiders and pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations 2015, the Trading Window of the Company is already closed from July 01, 2020 and shall re-open on August 13, 2020.

For and on behalf of
 Action Construction Equipment Limited
 Sd/-
 Anil Kumar
 Company Secretary

Place: Palwal
 Date: July 30, 2020

BRAND REALTY SERVICES LTD.
 Regd.Off: S-4 & DDA Shopping Complex, Opp. Pocket-1, Mayapuri Vihar, Phase-1, Delhi-110019 Landline: (011)-11-22755819
 CIN: L74899DL1959PLC064237, PAN: AABCBS3166R1ZP
 GST (DELHI) 07AABCBS166R1ZT, (UP) 09AABCBS166R1ZP

Extract of Audited Standalone Financial Results for the Fourth Quarter / year ended March 31, 2020
 (in Lacs)

Particulars	Quarter ended		Year ended
	31.03.2020 (Audited)	31.03.2019 (Audited)	
Total Income from Operations	9.55	(5.00)	(41.83)
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(14.51)	(41.28)	(65.08)
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(14.51)	(41.28)	(65.08)
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(27.79)	11.76	(78.36)
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(27.79)	11.76	(78.36)
Paid-up Equity Share Capital (of Rs. 10/- each)	300.44	300.44	300.44
Earnings Per Share (for continuing and discontinued operations)			
1. Basic:	(0.92)	0.39	(2.61)
2. Diluted:	(0.92)	0.39	(2.61)

Note:
 1. The above is an extract of the detailed format of the audited standalone financial Results for the Fourth quarter and financial year ended March, 31, 2020 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the Fourth quarter and financial year ended March, 31, 2020 is available on the Stock Exchanges' website (www.bseindia.com) and Company's website (www.brandreality.in).
 2. Previous year period figures have been rearranged and regrouped wherever necessary to make them comparable with current period figures.
 3. The above results were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in its meeting held on 30th July, 2020.
 4. These financial results have been prepared in accordance with Ind-AS notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and relevant amendments thereafter.

For Brand Realty Services Ltd
 Sd/-
 KAMAL MANCHANDA
 WHOLE TIME DIRECTOR

Place: Delhi
 Date: 30th July, 2020